

प्रेस विज्ञप्ति

थाना मेहनाजपुर

पुलिस मुठभेड में अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया तथा अवैध शराब/अवैध शस्त्र तस्करो की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में दिनांक 23.10.2020 को प्रभारी निरीक्षक मेहनाजपुर सतत पर्यवेक्षण में उ०नि० हरिद्वार मौर्या मय हमराह के वांछित अभियुक्तों की तलाशी में बरवां मोड पर मौजूद थे उसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति अपने साथ अवैध हथियार लिए पल्हना रोड पर ग्राम डण्डवल में घुरहू गुप्ता के ट्युवेल के पास नहर पुलिया पर बैठा हुआ है। जो किसी अपराधिक घटना को कारित करने की फिराक में है। इस सूचना उ०नि० हरिद्वार मौर्या ने उ.नि. श्री प्रमोद कुमार सिंह को ईगल मोबाइल ड्यूटी में लगे कर्मचारीगण को साथ लेकर बरवा मोड पर पहुँचने हेतु बताया गया। उ.नि. श्री प्रमोद कुमार सिंह अपने साथ ईगल मोबाइल में लगे कर्मचारी का ० नितिन मिश्रा व का ० चन्द्रमणि त्रिपाठी को साथ लेकर शीघ्रता करते हुए उ०नि० हरिद्वार मौर्या से बरवा मोड पर आकर मिले। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताया हुए स्थान पर पहुचकर देखा गया तो एक व्यक्ति ग्राम डण्डवल में घुरहू गुप्ता के ट्युवेल के पास बने नहर पुलिया पर बैठा है पुलिस बल को अपने तरफ आता देख उक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग किया। पुलिस बल द्वारा प्रशिक्षित तरीके से अपना बचाव कर एक बारगी घेरकर आवश्यक बल प्रयोग गिरफ्तार किया गया। नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम प्रदुम्न शर्मा S/O रमेश शर्मा R/O अमिलिया थाना चन्दवक जनपद जौनपुर बताया। मौके पर तलाशी में अभियुक्त के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर तथा एक अदद जिन्दा व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। भागने का कारण पूछने पर बताया कि मैं अपने साथ कट्टा कारतूस बराबर रखता तथा साथ में लेकर चलता हूँ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-107/2020 धारा 307 IPC व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं०-107/2020 धारा 307 IPC व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

प्रदुम्न शर्मा S/O रमेश शर्मा R/O अमिलिया PS चन्दवक जनपद जौनपुर

अपराधिक इतिहास

- 1.मु.अ.स.1516/17 धारा 392,34,307,411 IPC थाना केराकत जनपद जौनपुर ।
- 2.मु.अ.स.1523/17 धारा 307 IPC थाना केराकत जनपद जौनपुर ।
- 3.मु.अ.स.1525/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना केराकत जनपद जौनपुर ।
- 4.मु.अ.स.1526/17धारा 411,414 IPC थाना केराकत जनपद जौनपुर ।
- 5.मु.अ.स.450/17 धारा 411/414 IPC थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर ।
- 6.मु.अ.स.1250/17धारा147,148,149,307,41/411,414,419,420,467,468,471,504 IPC
थाना चंदवक जनपद जौनपुर .
- 7.मु.अ.स.213/19 धारा 307 ,34 IPC थाना चंदवक जनपद जौनपुर
- 8.मु.अ.स.214/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चंदवक जनपद जौनपुर
- 9.मु.अ.स.217/19 धारा 41/411,413,419,420,467,468,471IPC थाना चंदवक जनपद जौनपुर
- 10मु.अ.सं. 107/2020 धारा 307 IPC व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

विवरण बरामदगी

एक अदद कट्टा 315 बोर ,एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1.SI हरिद्वार मौर्या थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
- 2.SI प्रमोद कुमार सिंह थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
- 3.का.नितिन मिश्रा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
- 4.का.चन्द्रमणि त्रिपाठी थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़